

रोहतक, 5 मार्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (मदवि) में दो विकास कार्यों की आधारशिला रखी तथा दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने एक मेगावॉट के सौर ऊर्जा यंत्र परियोजना तथा डा. मंगल सेन बहुउद्देशीय इंडोर जिम्नैजियम हॉल के वातानुकूलन प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीन दयाल उपाध्याय युवा उद्यान तथा दीन दयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ एन्ट्रोप्रोनियरशिप एण्ड स्किल डेवलपमेंट की आधारशिला भी रखी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मदवि को इन परियोजनाओं के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरणीय संतुलन में मदद मिलती है, तथा ये ऊर्जा स्रोत किफायती भी है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष गोवर, मदवि कुलपति प्रो. बिजेन्द्र कुमार पूनिया, कुलसचिव जितेन्द्र भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय बंसल, रोहतक मंडल आयुक्त चन्द्र प्रकाश, रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक नवदीप सिंह विर्क, जिला उपायुक्त अतुल कुमार, अतिरिक्त जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक पंकज नैन समेत मदवि के डीन, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, विवि कर्मी, मडूटा अध्यक्ष विकास सिवाच तथा अन्य पदाधिकारी, मदवि गैर शिक्षक कर्मचारी संघ अध्यक्ष कुलवंत सिंह मलिक एवं अन्य पदाधिकारी, भाजपा के अन्य पदाधिकारी, जिला प्रशासन के आला अधिकारी सहित रोहतक के गणमान्यजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पावर प्रेजेंटेशन द्वारा मदवि की इन योजनाओं बारे विस्तार से जानकारी ली और इन परियोजनाओं की सराहना करते हुए एमडीयू को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित एक मेगावॉट सौर ऊर्जा यंत्र परियोजना एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, जिसे कि सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय के डा. मंगल सेन बहुउद्देशीय इंडोर जिम्नैजियम हॉल के वातानुकूलन परियोजना की स्थापना मुख्यमंत्री हरियाणा की घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए किया गया। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस वातानुकूलन यंत्र से डा. मंगलसेन बहुउद्देशीय इंडोर जिम्नैजियम हॉल में खिलाड़ियों की बेहतर खेल प्रदर्शन में मदद मिलेगी।

वहीं, मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा शिलान्यास किए गए दीन दयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ एन्ट्रोप्रोनियरशिप एण्ड स्किल डेवलपमेंट की स्थापना 5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। यह भवन 4350 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा। भवन के निर्माण में ग्रीन भवन की अवधारणा को ध्यान में रखा जाएगा। इस भवन में निदेशक कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, फैकल्टी कक्ष, दो सेमिनार हॉल, दो कॉन्फ्रेंस हॉल, छह स्मार्ट क्लास रूम, चार टूटोरियल रूम, कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी, प्रदर्शनी हॉल, आदि की व्यवस्था होगी। भवन के चारों ओर ग्रीन बेल्ट की भी व्यवस्था होगी।

भविष्य में इस भवन(संस्थान) से उद्यमिता तथा कौशल विकास के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। जिससे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए स्किल इंडिया कार्यक्रम तथा स्टार्ट अप इंडिया-स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के क्रियान्वयन को इस संस्थान में मूर्त रूप दिया जाएगा।

दीन दयाल उपाध्याय युवा उद्यान 15 एकड़ भूमि पर लगभग एक करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा। इस उद्यान में लगभग 2 किलोमीटर का वॉक वे ट्रैक (पैदल चलने का ट्रैक) होगा। पांच एकड़ में हरा उद्यान होगा, जिसमें विभिन्न फूल, पौधों तथा पेड़ों की प्रजाति लगाई जाएंगी। सुंदर लैंड स्कैपिंग की जाएगी। भविष्य में इस उद्यान के विस्तृत क्षेत्र में एक बड़े हॉल तथा एक छोटे हॉल, सेंटर फॉर नैचुरोपैथी, सेंटर फॉर योग, बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापना की भी योजना है। यह परियोजना पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करेगी।







